



दिनांक- 28.08.2022

थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा 02 नफर शातिर चोर को अवैध शस्त्र एवं चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया!

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोरों को दिनांक 28.08.2022 को **01 अदद अवैध तमंचा व 2 अदद चोरी की मोटर साइकिल** सहित गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 17.07.2022 को वादी अनूप सिंह पुत्र शिव पाल निवासी ग्राम अम्बरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गई तहरीर कि उनके घर के बहार से मोटर साइकिल चोरी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 275/22 धारा 379 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। एवं दिनांक 27.8.2022 को आशीष कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी सिठमरा थाना रूरा कानपुर देहात द्वारा दी गई तहरीर कि कारखाने के बाहर खड़ी मोटर साइकिल चोरी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 316/22 धारा 379 IPC बनाम अज्ञात थाना रूरा में पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगणों 1.आसिफ पुत्र मो0 समीम निवासी मोहल्ला बाजार वार्ड नं0 8 अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 19 वर्ष 2. इब्राहिम पुत्र रज्जाक निवासी मोहल्ला कुजैरैठी वार्ड नंबर 9 अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 23 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक- 28.08.2022 को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी हुई 02 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद अवैध तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

घटना कारित करने का तरीका- पूँछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सुनसान जगहों में खड़ी मोटर साइकिलों की रेकी करते थे उसके बाद मौके का फायदा उठाकर गाड़ियों को चोरी कर लेते हैं। चोरीशुदा मोटर साइकिलों को बेंच कर अपनी जरूरतें पूरी करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1.आसिफ पुत्र मो0 समीम निवासी मोहल्ला बाजार वार्ड नं0 8 अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
2. इब्राहिम पुत्र रज्जाक निवासी मोहल्ला कुजैरैठी वार्ड नंबर 9 अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी-

- 1- 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2- 02 अदद मोटर साइकिल

आसिफ पुत्र मो0 समीम का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 275/22 धारा 379/411/420 IPC थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 -316/22 धारा 379/411/420 IPC थाना रूरा कानपुर देहात

इब्राहिम पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 275/22 धारा 379/411/420 IPC थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 -316/22 धारा 379/411/420 IPC थाना रूरा कानपुर देहात
- 3.मु0अ0सं0 -.317/2022 धारा 3/25 A ACT थाना रूरा कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुभाष कुमार थाना रूरा कानपुर देहात
2. उ0नि0 अजय राज शर्मा थाना रूरा कानपुर देहात
3. का0 1007 सतीश थाना रूरा कानपुर देहात
4. कां0 932 यतेंद्र चाहर थाना रूरा कानपुर देहात
5. का0 362 राम मनोहर थाना रूरा कानपुर देहात
6. का 1083 प्रेम शंकर थाना रूरा कानपुर देहात

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**